

युनाइटेड इंडिया इन्स्योरेन्स कं. लि. (भारतीय साधारण बीमा निगम की सहायक)

UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD. (Subsidiary of the General Insurance Corporation of India) (पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : युनाइटेड इंडिया हाउस, 24, व्हाइट्स रोड, चेन्नई~ 600 014) (Regd. & Head Office : United India House, 24, Whites Road, CHENNAI - 600 014)

उत्पाद दायित्व बीमा के लिए प्रस्ताव पत्र PROPOSAL FORM FOR PRODUCT LIABILITY INSURANCE

जब तक प्रस्ताव स्वीकृत तथा प्रीमियम प्रदत्त नहीं हो जाता तब तक **कम्पनी का दायित्व आरंभ नहीं होगा ।** Liability of the Company does not commence until the proposal has been accepted and the Premium paid.

	been accepted and	and t remain parts
1.	प्रस्तावक का पूरा नाम सहायक व सम्बद्ध कं. के पूरे नाम Name of the Proposer (in full) Names of the Subsidiaries & Associate Cos. (in full)	
2.	प्रस्तावक का पंजीकृत पता सहायक व सम्बद्ध कं. के पंजिकृत पते Registered Address of the Prosper. Registered Address of the Subsidiaries & Associate Cos.	28 ST 12 ST
2A.	क्या सहायक व सम्बद्ध कंपनियों के लिए भी संरक्षण चाहिए कृपया दर्शाएं Please state whether cover required for subsidiary & associate companies.	
3.	प्रस्तावक के व्यवसाय का पता Business address of the proposer	Borner Stockhope (1) , we shall probe to the control of the contro
4.	जहां से वितरण किये जाने हैं, स्थान की स्थिति Location from where distribution is effected.	
5.	आप कितने वर्ष से व्यवसाय में हैं How long have you been in the business?	S Real year of Parties in the day of a late of the contract of
6.	क्या आप पूरे उत्पादन का निर्माण करते हैं? यदि नहीं, कौन से घटक / हिस्से आपके द्वारा खरीदे जाते हैं । Do you manufacture the complete product ? If not, what components/parts are purchased by you?	
7.	क्या निर्माण के प्रत्येक उत्पादन को फैक्टरी सं. सील द्वारा पहचाना जा सकता है । Can the date of manufacture of each product be identified by the factory number stamped on it?	
8.	क्या आपकी यूएसए / कुनाडा तथा अन्य विदेशों में कोई परिसम्पतियां और / या अन्यावेदन और / या अधिवासी कार्यकलाप और / या संगठन (क्तिया, तकनीकी या अन्य) है? यदि हों, संगठन का पूरा ब्योस दें। Do you have any assets and/or representation and/or any domiciled operation and/or activities and/or association (Financial, Technical or otherwise) in USA/Canada and other foreign countries? If so, please furnish details of association.	
9.	क्या आपका किसी भी तरीके से आपके किसी आपूर्तिकर्ता और वितरक से संबंध हैं। Are you affiliated in any manner with any of your suppliers and distributors?	
10.	कुपया निम्नों का पिछले तीन वर्षों का पूर्ण विवरण दें : Please give full description of the following for the last three years : (a) वर्ष / Year (b) निर्मित सामान तथा अनुमानित टर्नओवर	

		के विश्व के लिए के लिए के लिए कि लिए के	T The state of the	
		नया बीमा के लिए विचारार्थ उत्पादन का ब्यौरा दें जो निर्मित और / र जित है :		
	ins	ease furnish details of products to be considered fo	The state of the s	
	(a)	surance which are manufactured and/or designed- उत्पाद का नाम		
		Name of the product :		
	(b)	मुख्य घटक		
		Principal component :		
	(c)			
	(d)	Annual Units produced : वार्षिक टर्नओवर		
	(d)	Annual turnover :		
	(e)	वह कितने समय से मार्केट में है		
	,	How long has it been in the Market		
	(f)	उपयोग का अनुसानित आय	The second was sent to	
		Intended use		
	(g)	समय भावी उपयोग		
	(h)	Expected life of use:		
	(h)	भावी ग्राहक / अंतिम उपयोगकर्ता		
	(1)	Intended customer/ultimate user: उपयोग की वारण्टीयाँ		
	1.7	Warranties as to use:		
	(J)	तकनीकी जानकारी / सहरोग		
		Technical know-how/collaboration:		
10	3000		127	
12	. qui d	गपका अनुसंधान व विकास विभाग है		
	Do y	ou have Research & Development Dept.?		
10	-	2 0 1	era i	
13.	के जिल	ज्यलनशील / विस्फोटक, खतरनाक, रेडियोएक्टीवधर्मी स्वास्थ्य		
	का तन	हानिकारक स्वयं विषैली या अन्य से संयोगी कोई ऐसे उत्पादनों		
		लेख करें, यदि हां कृपया पूरा विवरण दें तथा क्या सावधानियाँ नाती है दर्शाए		
	plosiv	e specify any products which are inflammable / ex- e, dangerous, radioactive, harmful to health, pol- s by themselves or any combination of the specific state.		
	sonou	s by themselves or any combination with others. If		
	so, ple	ase give full details and state what precautions are		
	taken.	mat precautions are		
14.	क्या सार	गुन् अस्तीकाण नेति के ता के		
	कृपया द	ान अस्वीकरण नोटिस के अधीन बेचे या आपूर्तित किए जाते है शॉए, यदि हां है, कृपया ऐसे अस्वीकरण नोटिस का पूरा उद्धरण,		
	Please	state whether goods sold or supplied subject to		
	disclair	ner notice, and if so, please give full text parties		
	disclair lars of	ner notice, and if so, please give full text, particu- such disclaimer notice.		
	disclain	ner notice, and if so, please give full text, particu- such disclaimer notice.		
	lars of	such disclaimer notice.		
15.	lars of s	such disclaimer notice.	Augustinian (Augustinian (Augus	
	pyया अ	such disclaimer notice. गले 12 माह के दौरान माकेंट में आने वाले नये उत्पाद का		
	pyया अ ब्यौरा दे। Please f	such disclaimer notice. गले 12 माह के दौरान मार्केट में आने वाले नये उत्पाद का		
	कृपया अ ब्यौरा दे । Please f	such disclaimer notice. गले 12 माह के दौरान मार्केट में आने वाले नये उत्पाद का		
16.	कृपया अ ब्यौरा दे । Please t during ti पिछले पांच के ब्योरें व	such disclaimer notice. गले 12 माह के दौरान मार्केट में आने वाले नये उत्पाद का urnish particulars of new products to be marketed be next 12 months. सवी प्रस्तत करें। सवी प्रस्तत करें।		
16.	कृपया अ ब्यौरा दे । Please f during ti पिछले पांच के ब्योरें व Please f	such disclaimer notice. पाले 12 माह के दौरान मार्केट में आने वाले नये उत्पाद का urnish particulars of new products to be marketed ne next 12 months. व वर्षों के दौरान समापन, वापस लिए गए या प्रत्यावरित उत्पादों सूची प्रस्तुत करें।		
16.	कृपया अ ब्यौरा दे । Please f during ti पिछले पांच के ब्योरें व Please f	such disclaimer notice. पाले 12 माह के दौरान मार्केट में आने वाले नये उत्पाद का urnish particulars of new products to be marketed ne next 12 months. व वर्षों के दौरान समापन, वापस लिए गए या प्रत्यावरित उत्पादों सूची प्रस्तुत करें।		
16.	कृपया अ ब्यौरा दे । Please f during ti पिछले पांच के ब्योरें व Please f	such disclaimer notice. गले 12 माह के दौरान मार्केट में आने वाले नये उत्पाद का urnish particulars of new products to be marketed be next 12 months. सवी प्रस्तत करें। सवी प्रस्तत करें।		
16.	कृपया अ ब्यौरा दे । Please f during ti पिछले पांच के ब्योरें व Please f	such disclaimer notice. पाले 12 माह के दौरान मार्केट में आने वाले नये उत्पाद का urnish particulars of new products to be marketed ne next 12 months. व वर्षों के दौरान समापन, वापस लिए गए या प्रत्यावरित उत्पादों सूची प्रस्तुत करें।		
16.	कृपया अ ब्यौरा दे । Please f during ti पिछले पांच के ब्योरें व Please fi recalled	such disclaimer notice. गले 12 माह के दौरान मार्केट में आने वाले नये उत्पाद का urnish particulars of new products to be marketed ne next 12 months. व वर्षों के दौरान समापन, वापस लिए गए या प्रत्यावरित उत्पादों सूची प्रस्तुत करें। urnish details and list of products discontinued or or withdrawn during the last five years.		
16.	कृपया अ ब्यौरा दे । Please f during ti पिछले पांच के Please fi recalled	such disclaimer notice. गले 12 माह के दौरान मार्केट में आने वाले नये उत्पाद का urnish particulars of new products to be marketed ne next 12 months. वर्षों के दौरान समापन, वापस लिए गए या प्रत्यावरित उत्पादों सूची प्रस्तुत करें। ग्रामोडी details and list of products discontinued or or withdrawn during the last five years.		
16.	कृपया अ ब्यौरा दे । Please I during II पिछले पांर के ब्योरें व Please II recalled	such disclaimer notice. गले 12 माह के दौरान माकेंट में आने वाले नये उत्पाद का urnish particulars of new products to be marketed be next 12 months. 1 वर्षों के दौरान समापन, वापस लिए गए या प्रत्यावरित उत्पादों सूची प्रस्तुत करें। urnish details and list of products discontinued or or withdrawn during the last five years. के संगठन में शिकायत, घटना / दुर्घटना प्रतिवेदन प्रणाली		
16. 1	कृपया अ ब्यौरा दे । Please ! during ! पिछले पांच के ब्योरें व Please for recalled	such disclaimer notice. गले 12 माह के दौरान माकेंट में आने वाले नये उत्पाद का urnish particulars of new products to be marketed a next 12 months. a वर्षों के दौरान सामापन, वापस लिए गए या प्रत्यावरित उत्पादों सूची प्रस्तुत करें। urnish details and list of products discontinued or or withdrawn during the last five years. के संगठन में शिकायत, घटना / दुर्घटना प्रतिवेदन प्रणाली ब्योरा दें		
16. 1	कृपया अ ब्यौरा दे । Please ! during ! पिछले पांच के ब्योरें व Please for recalled	such disclaimer notice. गले 12 माह के दौरान माकेंट में आने वाले नये उत्पाद का urnish particulars of new products to be marketed a next 12 months. a वर्षों के दौरान सामापन, वापस लिए गए या प्रत्यावरित उत्पादों सूची प्रस्तुत करें। urnish details and list of products discontinued or or withdrawn during the last five years. के संगठन में शिकायत, घटना / दुर्घटना प्रतिवेदन प्रणाली ब्योरा दें		
16. 1	कृपया अ ब्यौरा दे । Please ! during ! पिछले पांच के ब्योरें व Please for recalled	such disclaimer notice. गले 12 माह के दौरान माकेंट में आने वाले नये उत्पाद का urnish particulars of new products to be marketed be next 12 months. 1 वर्षों के दौरान समापन, वापस लिए गए या प्रत्यावरित उत्पादों सूची प्रस्तुत करें। urnish details and list of products discontinued or or withdrawn during the last five years. के संगठन में शिकायत, घटना / दुर्घटना प्रतिवेदन प्रणाली		
16. 1	कृपया अ ब्यौरा दे । Please ! during ! पिछले पांच के ब्योरें व Please for recalled	such disclaimer notice. गले 12 माह के दौरान माकेंट में आने वाले नये उत्पाद का urnish particulars of new products to be marketed a next 12 months. a वर्षों के दौरान सामापन, वापस लिए गए या प्रत्यावरित उत्पादों सूची प्रस्तुत करें। urnish details and list of products discontinued or or withdrawn during the last five years. के संगठन में शिकायत, घटना / दुर्घटना प्रतिवेदन प्रणाली ब्योरा दें		
16.	कृपया अ कृपया अ ब्यौरा दे । Please f during ti पिछले पांड के ब्योरें व Please fi recalled कृपया आप का विस्तृत Please el ystem in	such disclaimer notice. गले 12 माह के दौरान माकेंट में आने वाले नये उत्पाद का urnish particulars of new products to be marketed he next 12 months. a क्यों के दौरान समापन, वापस लिए गए या प्रत्यावरित उत्पादों सूची प्रस्तुत करें। urnish details and list of products discontinued or or withdrawn during the last five years. के संगठन में शिकायत, घटना / दुर्घटना प्रतिवेदन प्रणाली व्योग दें aborate complaints, incident/accident reporting your organisation		
16. 1	कृपया अ क्यौरा दे । Please I during II पिछले पांच के क्यौरे व Please In recalled	such disclaimer notice. गले 12 माह के दौरान मार्केट में आने वाले नये उत्पाद का urnish particulars of new products to be marketed he next 12 months. वर्षों के दौरान समामन, वापस लिए गए या प्रत्यावरित उत्पादों सूची प्रस्तुत करें। ग्रामां के वीरान समामन, वापस लिए गए या प्रत्यावरित उत्पादों सूची प्रस्तुत करें। ग्रामां के details and list of products discontinued or or withdrawn during the last five years. के संगठन में शिकायत, घटना / दुर्घटना प्रतिवेदन प्रणाली व्योरा दें aborate complaints, incident/accident reporting your organisation		
16. 1	कृपया अ क्यौरा दे । Please I during II पिछले पांच के क्यौरे व Please In recalled	such disclaimer notice. गले 12 माह के दौरान मार्केट में आने वाले नये उत्पाद का urnish particulars of new products to be marketed he next 12 months. वर्षों के दौरान समामन, वापस लिए गए या प्रत्यावरित उत्पादों सूची प्रस्तुत करें। ग्रामां के वीरान समामन, वापस लिए गए या प्रत्यावरित उत्पादों सूची प्रस्तुत करें। ग्रामां के details and list of products discontinued or or withdrawn during the last five years. के संगठन में शिकायत, घटना / दुर्घटना प्रतिवेदन प्रणाली व्योरा दें aborate complaints, incident/accident reporting your organisation		
16. ं । । 17. वृह क क क श	कृपया अ ब्यौरा दे । Please fi पिछले पांड के ब्योरें व Please fi recalled puul आप n विस्तृत Please el ystem in प्या जांच	such disclaimer notice. गले 12 माह के दौरान माकेंट में आने वाले नये उत्पाद का urnish particulars of new products to be marketed he next 12 months. I वर्षों के दौरान समापन, वापस लिए गए या प्रत्यावरित उत्पादों सूची प्रस्तुत करें। urnish details and list of products discontinued or or withdrawn during the last five years. के संगठन में शिकायत, घटना / दुर्घटना प्रतिवेदन प्रणाली व्योरा दें aborate complaints, incident/accident reporting your organisation या बैच नियंत्रण सहित नियंत्रण तथा उत्पाद में संभावित ती का पता लगाने के लिए किया या प्रभावी परीक्षण का		
16. ी	कृपया अ कृपया अ ब्यौरा दे। Please f during ti पिछले पांड के ब्यौरें व Please fi recalled recalled प्रया आप ह्या अप ह्या अ ह्या अ ह्या अ ह्या अ ह्या अ ह्या अ ह्या अ ह	such disclaimer notice. गले 12 माह के दौरान माकेंट में आने वाले नये उत्पाद का urnish particulars of new products to be marketed he next 12 months. a क्यों के दौरान समापन, वापस लिए गए या प्रत्यावरित उत्पादों सूची प्रस्तुत करें। urnish details and list of products discontinued or or withdrawn during the last five years. के संगठन में शिकायत, घटना / दुर्घटना प्रतिवेदन प्रणाली व्योग दें aborate complaints, incident/accident reporting your organisation या बैच नियंत्रण सहित नियंत्रण तथा उत्पाद में संभावित ती का पता लगाने के लिए किया या प्रभावी परीक्षण का		
16. :	कृपया अ ब्यौरा दें। Please fi during the के ब्यौरें व Please fi recalled Please el lystem in पया जांच पया जांच पया जांच पया जांच पया जांच पया जांच () () () () () () () () () () () () () (such disclaimer notice. गले 12 माह के दौरान मार्केट में आने वाले नये उत्पाद का urnish particulars of new products to be marketed ne next 12 months. वर्षों के दौरान समापन, वापस लिए गए या प्रत्यावरित उत्पादों सूची प्रस्तुत करें । ग्राह्म वर्षों के दौरान समापन, वापस लिए गए या प्रत्यावरित उत्पादों सूची प्रस्तुत करें । ग्राह्म details and list of products discontinued or or withdrawn during the last five years. के संगठन में शिकायत, घटना / दुर्घटना प्रतिवेदन प्रणाली ब्यौरा दें aborate complaints, incident/accident reporting your organisation या बैच नियंत्रण सहित नियंत्रण तथा उत्पाद में संगावित ती का पता लगाने के लिए किया या प्रमावी परीक्षण का e details of checks or examinations or controls		
16. :	कृपया अ ब्यौरा दें। Please fi during the के ब्यौरें व Please fi recalled Please el lystem in पया जांच पया जांच पया जांच पया जांच पया जांच पया जांच () () () () () () () () () () () () () (such disclaimer notice. गले 12 माह के दौरान मार्केट में आने वाले नये उत्पाद का urnish particulars of new products to be marketed ne next 12 months. वर्षों के दौरान समापन, वापस लिए गए या प्रत्यावरित उत्पादों सूची प्रस्तुत करें । ग्राह्म वर्षों के दौरान समापन, वापस लिए गए या प्रत्यावरित उत्पादों सूची प्रस्तुत करें । ग्राह्म details and list of products discontinued or or withdrawn during the last five years. के संगठन में शिकायत, घटना / दुर्घटना प्रतिवेदन प्रणाली ब्यौरा दें aborate complaints, incident/accident reporting your organisation या बैच नियंत्रण सहित नियंत्रण तथा उत्पाद में संगावित ती का पता लगाने के लिए किया या प्रमावी परीक्षण का e details of checks or examinations or controls		
16. :	कृपया अ ब्यौरा दें। Please fi during the के ब्यौरें व Please fi recalled Please el lystem in पया जांच पया जांच पया जांच पया जांच पया जांच पया जांच () () () () () () () () () () () () () (such disclaimer notice. गले 12 माह के दौरान माकेंट में आने वाले नये उत्पाद का urnish particulars of new products to be marketed he next 12 months. a क्यों के दौरान समापन, वापस लिए गए या प्रत्यावरित उत्पादों सूची प्रस्तुत करें। urnish details and list of products discontinued or or withdrawn during the last five years. के संगठन में शिकायत, घटना / दुर्घटना प्रतिवेदन प्रणाली व्योग दें aborate complaints, incident/accident reporting your organisation या बैच नियंत्रण सहित नियंत्रण तथा उत्पाद में संभावित ती का पता लगाने के लिए किया या प्रभावी परीक्षण का		
16. :	कृपया अ ब्यौरा दें। Please fi during the के ब्यौरें व Please fi recalled Please el lystem in पया जांच पया जांच पया जांच पया जांच पया जांच पया जांच () () () () () () () () () () () () () (such disclaimer notice. गले 12 माह के दौरान मार्केट में आने वाले नये उत्पाद का urnish particulars of new products to be marketed ne next 12 months. वर्षों के दौरान समापन, वापस लिए गए या प्रत्यावरित उत्पादों सूची प्रस्तुत करें । ग्राह्म वर्षों के दौरान समापन, वापस लिए गए या प्रत्यावरित उत्पादों सूची प्रस्तुत करें । ग्राह्म details and list of products discontinued or or withdrawn during the last five years. के संगठन में शिकायत, घटना / दुर्घटना प्रतिवेदन प्रणाली ब्यौरा दें aborate complaints, incident/accident reporting your organisation या बैच नियंत्रण सहित नियंत्रण तथा उत्पाद में संगावित ती का पता लगाने के लिए किया या प्रमावी परीक्षण का e details of checks or examinations or controls		
16. । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	कृपया अ कृपया अ ब्यौरा दे । Please fi during ti पिछले पांड के ब्योरें व Please fi recalled recalled py पया आप हा विस्तृत Please el y y stem in पया जांच पया जांच पया जांच पया जांच पया जांच discover	such disclaimer notice. पाले 12 माह के दौरान माकेंट में आने वाले नये उत्पाद का urnish particulars of new products to be marketed he next 12 months. I avail के दौरान समापन, वापस लिए गए या प्रत्यावरित उत्पादों सूबी प्रस्तुत करें । urnish details and list of products discontinued or or withdrawn during the last five years. के संगठन में शिकायत, घटना / दुर्घटना प्रतिवेदन प्रणाली व्योग दें aborate complaints, incident/accident reporting your organisation या बैच नियंत्रण सहित नियंत्रण तथा उत्पाद में संभावित ती का पता लगाने के लिए किया या प्रमावी परीक्षण का e details of checks or examinations or controls atch control and testing carried out or effected is possible defects or errors in products.		
16. ं । । 17. वृद्ध क दो स्या । । । । । । । ।	कृपया अ ब्यौरा दे । Please f during ti के ब्यौरे व Please for Please for recalled पया जांच पया जांच पया जांच पया जांच पया जांच पया जांच पया जांच प्रवे हिंदि प्रवे हिंदि स्व हिंदि	such disclaimer notice. पाले 12 माह के दौरान मार्केट में आने वाले नये उत्पाद का urnish particulars of new products to be marketed nee next 12 months. वर्षों के दौरान समापन, वापस लिए गए या प्रत्यावरित उत्पादों सूची प्रस्तुत करें । Jumish details and list of products discontinued or or withdrawn during the last five years. के संगठन में शिकायत, घटना / दुर्घटना प्रतिवेदन प्रणाली ब्यौरा दें aborate complaints, incident/accident reporting your organisation या बैच नियंत्रण सहित नियंत्रण तथा उत्पाद में संभावित ती का पता लगाने के लिए किया या प्रभावी परीक्षण का e details of checks or examinations or controls atch control and testing carried out or effected possible defects or errors in products.		
16. া 17. কু কু P s 18. কু বী বী দান inc to 9. কথা vea	कृपया अ ब्यौरा दे। Please fi during til के ब्यौरे व Please fi recalled Please el Please el Please el Please el Vystem in Uru पा गल प्रया जांच प्रया जांच जांच जांच जांच जांच जांच जांच जांच	such disclaimer notice. The particular of the products to be marketed the next 12 months. The next 12 months.		
16. া 17. কু কু P s 18. কু বী বী দান inc to 9. কথা vea	कृपया अ ब्यौरा दे । Please f during ti के ब्यौरे व Please for Please for recalled पया जांच पया जांच पया जांच पया जांच पया जांच पया जांच पया जांच प्रवे हिंदि प्रवे हिंदि स्व हिंदि	such disclaimer notice. The particular of the products to be marketed the next 12 months. The next 12 months.		

क्या आपका उत्पादन कार्यकुशलता/उपयुक्तता या वर्गीकरण खतरनाक उध्दरणों या सुरक्षा से संबंधित किसी सरकारी पूछताछ या जांच के अधीन हैं; यदि हां, कृपया पूर्ण विवरण दें Have your products ever been subject to any enquiry or Investigation by any Government agency, concerning the efficiency/adequacy or labelling. Hazardous contents or safety? If so, please give full details safety? If so, please give full details. सुपर्दगी के बाद प्रत्येक उत्पादन की विफलता दर क्या है ? What is the failure rate of each product after hand over ? क्या आप खरीदार को गारन्टी और / या वारन्टीयों जारी करते हैं । यदि हाँ, आपके उत्पाद के लिए किस अवधि के लिए गारन्टी और / या वारन्टी है ? Do you issue guarantees and/or warranties to purchasers? If so, for what period do you guarantee and/or warrant your product ? प्रयोग हेतु निर्देश संबंधी ब्यौरे Particulars regarding directions for use : (a) क्या वह, कन्टेनर या उत्पाद पर मुद्रीत है Is it by printing on container or products ? क्या यह अलग पत्रक या विवरणिका में है । (b) Is it by separate leaflet or brochure? क्या स्पष्ट रूप से खतरा चेतावनी दर्शायी गयी है। (c) Is the hazard warning clearly shown? निम्न प्रपत्र में पिछले तीन वषौँ का दावा अनुभव भरें। Please furnish claims history for the last three years in the following format: वर्ष / Year दावों की सं. / No. of claims : (b) कुल प्रदत्त राशि / Total amount paid : शारिरीक क्षति / Bodily Injury : सम्पति क्षति / Property Damage प्रतिवादी कार्यवाही की लागत प्रतिवादा कायपाह के लागत Cost of defence action : बकाया दावों की कुल राशि Total amt. of pending claims : शारीरिक क्षति / Bodily Injury : सम्पत्ति क्षति / Property Damage : प्रतिवाद कार्यवाही की लागत Cost of defence action क्या आप कोई ऐसी घटना, स्थिति, खराबी, परिस्थितियां या संदिग्ध खराबी के बारे में जानते हैं जिसके परिणामस्वरूप दावा हो सकता है। Are you aware of any incidents, conditions, defects, circumstances or suspected defects which may result in claim ? क्या किसी बीमाकर्ता ने आपके प्रस्ताव या नवीकरण को रह किया है या प्रीमियम वृध्दित किया है या विशिष्ट शर्ते लगायी है ? यदि हाँ, कृपया ब्यौरा दें। Have your proposal or renewal been declined or premium increased, special terms imposed by any insurer?
If so, please give particulars: 27. घरेलू बिक्री के लिए अपेक्षित क्षतिपूर्ति की सीमा लिखे । Please indicate the limit of indemnity required for domeslic sales.
(i) किसी एक दुर्घटना / Any one accident :
(ii) पॉटिन्सी अवधि के दौरान सकल का Ags egate during the policy period भारत समेत सभी अन्य देश कृपया आप द्वारा वहन किए जाने वाले प्रत्येक दावा के लिए स्वैच्छिक उपरि राशि दर्शाएं (अनिवार्य उपरि राशि के अतिरिक्त) यूएसए,कनाडा All other countries Incl. India. USA Canada

Please indicate the Voluntary Excess for each claim (in addition to Compulsory Excess) you are willing to bear.

	रूपिया विकी किर्गारित	11-75-75 107-677-1	~
29.	कृपया निम्नों के पिछले 3 वर्षों के उत्पादवार टर्नओवर बिक्री निर्धारित करें Please specify quantity sales turnover productwise for the		Control of the Contro
	test 2 years as linder:		
	(a) घरेलू / Domestic : यूएसए / कनाडा / USA / Canada रेन्ट्रीनी नेजा (अर्जी में) / OECD countries (to list)		
	(c) आइपाडा पर एक्स (d) गैर ओईपीडी देशी समेत अन्य देश Other countries including non-OECD countries.		
	ो के का का किस के वार्ष	Suit Brown to A SINGLE WILL WE	term a property of
30.	आप कब से निम्न देशों को निर्यात कर रहे है तथा क्या आप निम्न देशों में निर्यात के लिए भी संरक्षण चाहते हैं .	क प्राप्त कर्म व्यवस्थान वर्षे हैं और ह	
	How long have you been exporting to the londer tries and do you require cover for exports to these countries and do you require cover for exports to these countries and do you require cover for exporting to the londer tries.		
	tries ? (a) यूएसए तथा कनाडा / USA and Canada : यूएसए तथा कनाडा / OECD countries : जोईसीडी देश / OECD countries : (b) गैर ओईसीडी देशों के समेत अन्य देशों में		
	(c) गर आइसाडा देशों के समर्त जन्म चरा है। Other countries including non-OECD countries. (केवल घरेलू टर्नुओवर आवरित करने पर ही निर्यात के लिए बीमा		CAS CARGO LESTING L
	(केवल घरेलू टनआवर आवारत करने पर हा गाँवात करने संरक्षण स्वीकृत होंगे) (Cover for exports will be granted only if domestic turn-		A DE LET A SE
	over is covered).	Land Barrata	WARE ROBERT OF THE
31.	Do you require 'Limited Vendor's Endorsement '	 π (for s s to come to with the second second	
	(कृपया किया) विशेष उत्पादों के नाम दें) देशों को नियानि प्रत्येक उत्पादों के नाम दें) (Please enclose a copy of the contract with the Vendor/s and give the names to each product of export to such countries).		
		The state of the s	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF
32	् क्या आपने यूएसए / कनाडियन राज्य / संघीय ऐसे देशों में निर्यात के प्रत्येक उत्पाद को प्रयोज्य कानूनी / मानको का अनुपालन किया Do you comply with USA/Canadian State/Federal Laws/ Standards applicable to each product of export to such		
	countries ?		
		Volume Vo	Chipe 158 0 018
33	कृपया यूएसए / कनाडा परिसम्पत्ति के किसी मुख्तारनामा का ब्यौरा दें । Please give details of any power of attorney to Assets in USA/Canada.		
	USA/Carrada.	a costa de acetado al Aceta	LET JUST LEVEL TO THE STATE OF
		STORE TO THE VALUE OF SAID	की मध्यरात्रि 12.00 बजे से
3	4. पॉलिसी अवधि / Policy period;	From 12.00 midnight of	की मध्यरात्रि 12.00 बजे तक
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	to 12.00 midnight of	
त त	/ हम उपरोक्त निर्दिष्ट क्षातिपूर्ति सीमा के प्रति यु. ई. ई. कं. लि के उत्पाद दां के मेरे / हमारे बीमा के लिए प्रस्तावित व्यवसाय से संबंधित सभी सांविधिक प्राव ध्या सब है तथा मैने / हमने कोई, महत्वपूर्ण तथ्य को छोडा, निरुद्ध किया, मिश् था कंपनी के बीच संविदा का आधार होंगे तथा उसमे शामिल माना जाएगा We desire to effect an Insurance in terms of the Product Liabil pecified above and I/We hereby declare that all statutory prompiled with. I/We further declare that all the above statement insrepresented or misstated any material fact and I/We agree to	याकथन किया या छिपाया नहा ह आर न ity Policy of the U.I.I. Company L pvisions relating to my/our busin	td. against the limits of indemnity
	is and the Company and be incorporated therein.		
·			
·		and the second second second	पुस्तावक के हस्ताक्षर

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 - छूट का निषेध

Section 41 of Insurance Act, 1938 – Prohibition of Rebates

- 1) कोई भी व्यक्ति भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संबंध में किसी भी व्यक्ति को बीमा लेने या नवीनीकृत करने या जारी रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पालिसी पर देय पूरे कमीशन की या उसके किसी भाग की अथवा पालिसी पर दिखाए गए प्रोमियम की कोई छूट या ऐसी छूट के सिवाय जो बीमाकर्ता की विवरण पत्रिकाओं या सारणियों के अनुसार अनुमति दी जा सकती है, न तो देगा और न देने का प्रस्ताव करेगा और न पालिसी लेनेवाला या उसे नवीकृत करानेवाला या जारी रखनेवाला कोई भी व्यक्ति किसी छूट को स्वीकार नहीं करेगा।
 - No person shall allow or offer to allow either directly or indirectly as an inducement to any person to take out or renew or continue insurance in respect of any kind of risk relating to lives or property in India, any rebate of the whole or part of the commission payable or any rebate of the premium shown on the policy, nor shall any person taking out or renewing or continuing a policy accept any rebate, except such rebate as may be allowed in accordance with the prospectus or tables of the Insurers.
- 2) इस धारा के प्रावधानों के अनुपालन करने में चूक करने वाले किसी भी व्यक्ति को दस लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। Any person making default in complying with the provisions of this section shall be punishable with fine which may extend to ten lakh rupees.